



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1982/माघ 17, 1903

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6, 1982/MAGHA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1982

सां० कां० नि० 50(अ)—केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गेहूं बेलन आटा मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1957 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गेहूं बेलन आटा मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) संशोधन आदेश 1982\* होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. गेहूं बेलन आटा मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1957 में —

(1) खंड 2 में —

(क) उपखंड (ग) में “राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर “केंद्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतः स्थापित किया जाएगा — “(घष) ‘विनिर्दिष्ट अधिकारी’ से इस आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है।”

(2) खंड 4 में —

(क) उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“(1) इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा और इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रकरण 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा।”

(ख) उपखंड (2) की मव (ग) में अनुज्ञापन “प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर “विनिर्दिष्ट प्राधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

(3) खंड 5 में —

(क) उपखंड (1) में “अनुज्ञापन प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तुक यह कि यदि कोई बेलन आटा मिल बारह मास से अधिक की अवधि तक बन्द रहती है या अनुज्ञापनकारी अनुज्ञप्ति की विधिमाम्यता की समाप्ति के तीस दिन के भीतर अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करवाता है तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र को अपनी मिफारिशों के साथ या अन्यथा अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा” ;

(ग) उपखंड (2) में "अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(4) खण्ड 10 में —

(क) शीर्षक में "अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपखण्ड (1) में —

(i) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक में "नहीं दिया जाएगा" शब्दों के पूर्व "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उपखंड (2) में —

"अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति अनुज्ञापन प्राधिकारी या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(5) खण्ड 11 में "अनुज्ञापन प्राधिकारी" उसे अपने आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उसे अपने आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(6) खंड 12 में—

(क) "खंड 5 या खंड 11 या खंड 11क के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर — "खंड 5 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या खंड 5 या खंड 11 या खंड 11क के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ,

(7) अनुसूची के प्रारूप 1 में —

"अनुज्ञापन प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अनुज्ञापन प्राधिकारी\*/विनिर्दिष्ट प्राधिकारी\*" शब्द और तारंक रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित टिप्पण अन्त में जोड़ा जाएगा —

टिप्पण : "जो लागू न हो उसे काट दें।"

कुट नोट ::

भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एस० आर० प्रो० 2861 तारीख 9 सितम्बर 1957 के अधीन गेहूँ रोलेर फ्लोर मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) अधिनियम, 1957 प्रकाशित किया गया था। इस अधिनियम में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है :-

(1) सा० का० नि० 348 तारीख 5-5-58

(2) सा० का० नि० 1081 तारीख 5-11-58

(3) सा० का० नि० 18 तारीख 2-1-60

(4) सा० का० नि० 751 तारीख 29-6-60

(5) सा० का० नि० 181 तारीख 10-2-61

(6) सा० का० नि० 746 तारीख 27-5-61

(7) सा० का० नि० 784 तारीख 7-6-61

(8) सा० का० नि० 1213 तारीख 13-9-61

(9) सा० का० नि० 354 तारीख 23-2-63

(10) सा० का० नि० 960 तारीख 6-7-65

(11) सा० का० नि० 1387 तारीख 15-9-65

(12) सा० का० नि० 462 तारीख 24-3-66

(13) सा० का० नि० 971 तारीख 18-6-66

(14) सा० का० नि० 2021 तारीख 31-12-66

(15) सा० का० नि० 65 तारीख 13-1-67

(16) सा० का० नि० 446 तारीख 21-2-69

(17) सा० का० नि० 1724 तारीख 17-5-69

(18) सा० का० नि० 1296 तारीख 27-8-76

(19) सा० का० नि० 874 तारीख 18-6-79

(20) सा० का० नि० 1473 तारीख 20-11-79

(21) सा० का० नि० 242 (ई) तारीख 29-4-80

(22) सा० का० नि० 673 तारीख 10-7-81

[मि० सं० 1 (4)/81- डी० आर० 11]

एम० मुकृद्वाण्यम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

### ORDER

New Delhi, the 6th February, 1982

G.S.R. 50(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) Order, 1957, namely :—

1. (1) This Order may be called the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) Amendment Order, 1982.\*

(2) It shall come into force at once.

2. In the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) Order, 1957.

(1) in clause 2,—

(a) in sub-clause (c), for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted ;

(b) after sub-clause (d), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(dd) 'specified authority' means an officer appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties specified under this Order ;

(2) in clause 4,—

(a) for sub-clause (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Every application for a licence under this Order shall be made to the licensing authority and every application for renewal of a licence under this Order shall be made to the specified authority, in Form I."

(b) in sub-clause (2), in item (c), for the words "Licensing authority" the words "specified authority" shall be substituted.

(3) in clause 5,—

(a) in sub-clause (1), after the words, "Licensing authority" the words, "or as the case may be, the specified authority" shall be inserted.

- (b) after sub-clause (1), the following proviso shall be inserted, namely :—
- “Provided that if a roller flour mill remains closed for a period exceeding twelve months or the licensee does not get the licence renewed within thirty days of the expiry of the validity of the licence, the specified authority shall forward the application for renewal of the licence to the licensing authority with its recommendations or otherwise” ;
- (c) in sub-clause (2), after the words “licensing authority”, the words “or as the case may be, the specified authority” shall be inserted.
- (4) in clause 10,—
- (a) in the “Heading” after the words “licensing authority” the words “and specified authority” shall be inserted ;
- (b) in sub-clause (1),—
- (i) after the words “Licensing authority” the words, “or as the case may be, the specified authority” shall be inserted ;
- (ii) in the proviso after the words “shall be issued” the words “by the specified authority” shall be inserted ;
- (iii) in sub-clause (2) after the words “Licensing authority” the words “or as the case may be, the specified authority” shall be inserted ;
- (5) in clause 11, for the words “licensing authority may,” the words “the licensing authority may, after receipt of the report from the specified authority,” shall be substituted.
- (6) in clause 12,—
- (a) after the words “by an order of” the words “the specified authority under clause 5 or of” shall be inserted ;
- (b) for the words “State Government” the words “Central Government” shall be substituted.
- (7) in the Schedule, in Form I,—
- (a) for the words “Licensing Authority”, the words and asterisk “Licensing Authority\*/Specified Authority\*” shall be substituted ;
- (b) the following note shall be added at the end :—
- “\*Note : Strike out whichever is not applicable.”

## Foot Note :

The Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) Order, 1957, was published under the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. S.R.O. 2861 dated the 9th September, 1957. This Order has been amended from time to time by Notification Nos. :—

(1) G.S.R.	348	dated	5-5-58
(2) G.S.R.	1081	dated	5-11-58
(3) G.S.R.	18	dated	2-1-60
(4) G.S.R.	751	dated	29-6-60
(5) G.S.R.	181	dated	10-2-61
(6) G.S.R.	746	dated	27-5-61
(7) G.S.R.	784	dated	7-6-61
(8) G.S.R.	1213	dated	13-9-61
(9) G.S.R.	354	dated	23-2-63
(10) G.S.R.	960	dated	6-7-65
(11) G.S.R.	1387	dated	15-9-65
(12) G.S.R.	462	dated	24-3-66
(13) G.S.R.	971	dated	18-6-66
(14) G.S.R.	2021	dated	31-12-66
(15) G.S.R.	65	dated	13-1-67
(16) G.S.R.	446	dated	21-2-69
(17) G.S.R.	1724	dated	17-5-69
(18) G.S.R.	1296	dated	27-8-76
(19) G.S.R.	874	dated	18-6-79
(20) G.S.R.	1473	dated	30-11-79
(21) G.S.R.	242(E)	dated	29-4-80
(22) G.S.R.	673	dated	10-7-81

[F. No. 1(4)/81-DR II]

M. SUBRAHMANYAM, Joint Secy.

